

विद्या भवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय
रूपम कुमारी, वर्ग सप्तम, विषय हिंदी
दिनांक- 13-10-20

Based on NCERT pattern

॥ पुनरावृत्ति ॥

सुप्रभात बच्चों , आज की कक्षा में पुनरावृत्ति
के तहत आपके लिए वर्ण से संबंधित सामग्री
को लेकर आए हैं आप इसे पढ़ें और याद करें
/

वर्णमाला के प्रश्न उत्तर | हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न उत्तर

प्रश्न-1- भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं ?

उत्तर- वर्ण

प्रश्न-2- वर्णमाला किसे कहते हैं ?

उत्तर- वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं

प्रश्न-3- श,ष,स,ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं ?

उत्तर- संघर्षी

प्रश्न-4- क,ग, ज़,फ़ ध्वनियाँ किसकी हैं ?

उत्तर- अरबी-फारसी की

प्रश्न-5- मूलतः वर्णों की संख्या हिन्दी भाषा में कितनी है ?

उत्तर- 52 वर्ण

प्रश्न-6- घ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन-सा है ?

उत्तर- कंठ के द्वारा घ का उच्चारण किया जाता है

प्रश्न-7- क्ष वर्ण किसके योग से बना है ?

उत्तर- क्+ष

प्रश्न-8- हिन्दी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है ?

उत्तर- 11 (ग्यारह)

प्रश्न-9- जिन शब्दों के अंत में अ आता है, उन्हें क्या कहते हैं ?

उत्तर- उन शब्दों को अकारांत कहते हैं।

प्रश्न-10- हिन्दी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है ?

उत्तर- 33

प्रश्न-11- छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है ?

उत्तर- तालव्य

प्रश्न-12- य,र,ल,व किस वर्ग के व्यंजन हैं ?

उत्तर- अन्तःस्थ

प्रश्न-13- विवृत क्या है ?

उत्तर- विवृत में अवस्था में स्वरों के उच्चारणों में मुखद्वार पूरा खुलता है। जब हम आ स्वर का उच्चारण करते हैं। तो वह विवृत में आता है।

प्रश्न-14- अर्ध-विवृत से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर- जन स्वरों के उच्चारण में मुख-द्वार आधा खुलता है जैसे- अ,ऐ,औ,ऑ इस अवस्था को अर्ध विवृत कहते हैं।

प्रश्न-15- अग्र स्वर क्या होता है ?

उत्तर- इस में जीभ का अग्र भाग द्वारा स्वरों को उच्चारण किया जाता है - जैसे इ,इ,ए,ऐ ।